



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1945 (श10)
(सं0 पटना 787) पटना, शनिवार, 30 सितम्बर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 241 दिनांक 30 सितम्बर 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त उप-धारा के तहत निम्नलिखित आपूर्ति को अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

- (i) ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति;
 - (ii) ऑनलाइन मनी गेमिंग के अलावा, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति; और
 - (iii) कसीनो में कार्यवाही योग्य दावों की आपूर्ति
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12) 3492)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 241 दिनांक 30 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)3492)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2023

S.O. 241 Date 30 September 2023—In exercise of the powers conferred under sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, notifies the following supplies under the said sub-section, namely:—

- (i) supply of online money gaming;
 - (ii) supply of online gaming, other than online money gaming; and
 - (iii) supply of actionable claims in casinos.
2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 3492)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 787-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>